



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2004/फाल्गुन 29, 1925

No. 282]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2004/PHALGUNA 29, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2004

का.आ. 373 (अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे आयकर अधिनियम 1961 के उक्त प्रावधानों के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नास्त:

सारणी

क्रम सं०	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.	4.
1.	इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, नहावा हाउस, प्रथम तल, 65, महर्षि कर्वे रोड, मैरिन लाइंस, मुम्बई-400002.	“लाइफलाइन एक्सप्रेस” (चलता फिरता हस्पताल) को चलाना ।	वित्तीय वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 351.02 लाख रु० (119.19 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित)
2.	श्री सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धार्थनगर तुमकुर, कर्नाटक राज्य ।	हैल्थ सेन्ट्रों, ट्रामा सेन्ट्रों, अस्पताल, विशेषज्ञता सेन्ट्रों की स्थापना सहित मेडिकल, डेन्टल तथा फार्मसी एजुकेशन शुरू करने के लिए स्त्री रोग, शिशु रोग, ऑनकोलाजी विभागों के लिए अस्पताल भवन तथा स्कूल, हॉस्टल भवन निर्माण और फर्नीचर एवं फिक्सचरों, कम्प्यूटरों, चिकित्सा उपकरणों आदि की खरीद ।	वित्तीय वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 6503.00 लाख रु० इस शर्त के साथ कि (क) ट्रस्ट प्रमुख स्थानों पर यह आम सूचनाएं प्रदर्शित करेगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ मुफ्त प्रदान किए जाएंगे (ख) संस्था यह प्रमाणित करते हुए प्रत्येक निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी सहित चार्टर्ड एकाउन्टेड से एक रिपोर्ट दर्ज करेगा कि संस्था के विद्यमान रिकार्ड में उपयुक्त रूप से यह प्रदर्शित होगा कि कुल लाभार्थियों में से

(1)	(2)	(3)	(4)
			50प्रतिशत अथवा इससे अधिक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आयेंगे तथा उन्हें पूरा लाभ मुफ्त में प्रदान किया जाएगा ।
3.	अनुपम मिशन, ब्रह्मज्योति, योगजी मार्ग मोगरी 388345, आनन्द गुजरात ।	अनुपम मिशन-सामाजिक कल्याण केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 3.44 करोड़ रु० । तथापि समिति ने ट्रस्ट द्वारा मांगी गई 2.40 करोड़ रुपए की कार्पस निधि के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया ।
4.	सरस्वती सेवा फाउन्डेशन, 5/1, क्लाइव रॉ, मेजानाइन फ्लोर, कक्ष सं० 14, कोलकाता-70001	5 लाख रुपये से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों/अथवा कस्बों के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा इनको चलाना ।	वित्तीय वर्ष 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 529.60 लाख रु० ।
5.	विश्व हिन्दू जन कल्याण परिषद विदर्भ, लक्ष्मीनगर संहानिवास, दीनानाथ हाईस्कूल के सामने, धन्तोली, नागपुर ।	स्कूल भवन का निर्माण, स्वास्थ्य देखरेख तथा साक्षरता जागरूकता कार्यक्रमों, गोबर गैस, उर्वरक, जैविक कीटनाशी प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाना और परियोजना को चलाना	तीन वित्तीय वर्ष अर्थात् 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के लिए 2.00 करोड़ रु० की कार्पस निधि सहित 1530.86 लाख रुपए ।
6.	ए सी आई एल नवसर्जन ग्रामीण विकास फाउन्डेशन (अनारडे	गरीबों की आय बढ़ाने के संसाधनों, परती भूमि एवं प्रबंधन तथा संजाल और	वित्तीय वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल तीन

(1)	(2)	(3)	(4)
	फाउन्डेशन) द्वारा एजिस लोजिसटिक्स लि०, चौथा तल, बालदोता भवन, 117, एम०के० रोड, मुम्बई 400020	लिकेज के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास।	वर्षों के लिए 707.25 लाख रू०
7.	गणेश मंडाली इंजन वाल्व्स ट्रस्ट, मारग्रेट सिडनी अस्पताल, 13, पुराना (सं० 5) सातवीं गली, नांगानाल्लूर चेन्नई -600061	शिशु रोग ब्लॉक, बहिरंग रोगी ब्लॉक का निर्माण तथा गहन चिकित्सा शिशु रोग ब्लॉक और बहिरोगी ब्लॉक सहित अस्पताल को उपस्कर प्रदान करना।	एक वित्तीय वर्ष अर्थात् 2003-2004 के लिए 82.40 लाख रुपए इस शर्त के साथ कि ट्रस्ट को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित उन लोगों को मुफ्त इलाज/आरक्षण प्रदान करने के लिए संकल्प पारित करना होगा जिनकी संख्या कुल लाभार्थियों की कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

2. यह अधिसूचना उक्त सारणी की क्रम सं० 7 पर उल्लिखित परियोजना अथवा स्कीम के संबंध में वित्तीय वर्ष 2003-2004 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए और क्रम सं० 1, 2, 3, 4, 5, और 6 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 106/2004/फा. सं. एन. सी.-348/2003]

सुनील शर्मा, उपाय सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2004

S.O. 373 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby approves the institutions mentioned in column (2) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also specifies in the column (4) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said provisions of Income tax Act, 1961, namely:-

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Impact India Foundation, NHAVA House, 1st Floor, 65, Maharshi Karve Road, Marine Lines, Mumbai-400002.	Running of "Lifeline Express" (the hospital on wheels.)	Rs. 351.02 lakhs (including a corpus fund of Rs. 119.19 lakhs) for financial years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 i.e for three years only.
2	Sri Siddhartha Education Society, Siddharthanagar, Tumkur, Karnataka State.	Construction of hospital building for Gynecology, Pediatrics, Oncology departments and school, hostels, buildings, to start Medical, Dental and Pharmacy education, including establishing Health centres, Trauma Centres, Hospital, Speciality centers and purchase of furniture and fixtures, computers, medical equipments etc.	Rs. 6503.00 lakhs for financial years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 i.e for three years only. subject to the condition that (a) the Trust should display public notices in prominent places that the benefits are provided free of cost to economically weaker sections (b) the institution would file a report from the Chartered Accountant alongwith the return of income of each assessment year certifying that the existing records of the Institution adequately demonstrate that 50% or more of the total beneficiaries came from the economically weaker

sections of the society and that full benefits were rendered to them free of cost.

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 3. | Anoopam Mission, Brahmajyoti , Yogji Marg, Mogri 388 345, Anand , Gujarat | Anoopam Mission- - Social Welfare Centre. | Rs. 3.44 crores for financial years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 i.e for three years only. However , the Committee did not approve the proposal for a corpus fund of Rs. 2.40 crores as sought by the Trust |
| 4. | Saraswati Seva Foundation, 5/1 Clive Row, Mezzanine Floor, Room No. 14, Kolkata – 700001. | Establishment and running of institutions for vocational education and training for rural area/or towns having a population of less than 5 lakhs. | Rs. 529.60 lakhs for financial years 2003-2004 , 2004-2005 and 2005-2006 i.e for three years only. |
| 5. | Vishva Hindu Jan Kalyan Parishad Vidarbha, Laxmi Narayan Sanhanivas, Opp Dinanath High School, Dhantoli, Nagpur. | Construction of School buildings, running of health care and literacy awareness programmes, gobar gas, fertilizer, bio-pesticides training centres and running of the project. | Rs. 1530.86 lakhs including a corpus fund of Rs. 2.00 crores for financial years 2003-2004 , 2004-2005 and 2005-2006 i.e for three years only. |
| 6. | ACIL Navasarjan Rural Development Foundation (AnaRDe Foundation), C/o Aegis Logistics Ltd. 4 th Floor, Baldota Bhavan, 117, M.K. Road, Mumbai 400020. | Socio-Economic development of rural areas through leveraging of resources income generation for poor, wasteland & management and networking and linkages. | Rs.707.25 lakhs for financial years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 i.e for three years only. |
| 7. | Ganesh Mandali Engine Valves Trust, Margaret | Construction of Pediatric Block , out patient Block and provide equipments for | Rs. 82.40 lakhs for financial year 2003-2004 i.e for one year only subject to the |

Sidney Hospital,
13, Old (NO. 5) 7th
Street,
Nanganallur,
Chennai 600061.

Hospital including intensive
care Medical unit Pediatric
Block and out patients Block.

condition that the Trust
should pass a resolution for
providing freeship
/reservation to those
belonging to the
economically weaker
sections of Society whose
number should at least
be 50% of the total
beneficiaries.

2. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 1,2,3,4,5, and 6 of the said Table and for a period of one year in relation to financial year 2003-2004 in respect of project or scheme mentioned at serial number 7.

[No. 106/2004/F.No. NC-348/2003]

SUNIL SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2004

का.आ. 374 (अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 54 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अणुव्रत ग्राम भारती संस्थान विनयपुरम, डाकघर-चंकरोड, तहसील-मण्डल, जिला भीलवाड़ा राजस्थान द्वारा राजस्थान, जिला भीलवाड़ा, विनयपुरम में प्राथमिक स्कूल, महिला और बाल कल्याण केन्द्र, कर्मचारी आवास, अतिथिगृह, प्रयोग शाला और पुस्तकालय हॉल, रसोई और भोजन कक्ष, ध्यान कक्ष, प्रशासनिक ब्लॉक के लिए भवन निर्माण ग्रामीण विकास परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 13 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे दिनांक 23 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 159 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना एवं स्कीम के रूप में पुनः आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए अणुव्रत ग्राम भारती संस्थान विनयपुरम, डाकघर-चंकशेड, तहसील-मण्डल, जिला भीलवाड़ा राजस्थान द्वारा राजस्थान, जिला भीलवाड़ा, विनयपुरम में प्राथमिक स्कूल, महिला और बाल कल्याण केन्द्र, कर्मचारी आवास, अतिथिगृह, प्रयोग शाला और पुस्तकालय हॉल रसोई और भोजन कक्ष, ध्यान कक्ष, प्रशासनिक ब्लॉक के लिए भवन निर्माण ग्रामीण विकास चलाये की परियोजना या स्कीम को वित्त वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए साठ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती हैं।

[सं. 107/2004/फा. सं. एन. सी.-348/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2004

S.O. 374 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.54(E) dated the 16th January, 1998, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, for Rural development project- construction of buildings for primary school, women and child welfare centre, staff quarters, guest house, laboratory and library hall, kitchen and dinning hall, meditation hall, administrative block at Vinayapuram, District – Bhilwara, Rajasthan, by Anuvrat Gram Bharti Sansthan, Vinayapuram, P.O. Chankshed, Tehsil – Mandal, District – Bhilwara, Rajasthan, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 and which was extended further vide notification number S.O.159(E) dated the 23rd February, 2000 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Rural development project - construction of buildings for primary school, women and child welfare centre, staff quarters, guest house, laboratory and library hall, kitchen and dinning hall, meditation hall, administrative block at Vinayapuram, District – Bhilwara, Rajasthan, which is being carried out by Anuvrat Gram Bharti Sansthan, Vinayapuram, P.O. Chankshed, Tehsil – Mandal, District – Bhilwara, Rajasthan at the estimated cost of rupees sixty lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2003-2004.

[No. 107/2004/F.No. NC-348/2003]

SUNIL SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2004

का.आ. 375 (अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 जनवरी, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 15 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री सत्य साईं ग्रामीण जागृति, साईं सदन, मकान सं० 551, सैक्टर-8, चण्डीगढ़-160018 द्वारा हरियाणा, जिला यमुना नगर, गांव डारवा में स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक खेल, आध्यात्मिक क्रियाकलाप और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित श्री सत्य साईं ग्रामीण जागृति सेवा सदन (बहुआयामी ग्रामीण कल्याण परियोजना) के लिए कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 12 पर विनिर्दिष्ट किया था ; जिसे बाद में दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 864 (अ०) द्वारा पात्र परियोजना एवं स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था , और जिसे बाद में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 964 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनः बढ़ाया गया था , और जिसे दिनांक 28 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 286 (अ०) द्वारा संशोधित किया गया था और राशि को बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की पुनः सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीसत्य साईं ग्रामीण जागृति, साईं सदन, मकान सं० 551, सैक्टर-8, चण्डीगढ़-160018 द्वारा हरियाणा, जिला यमुना नगर, गांव डारवा में स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक खेल, आध्यात्मिक क्रियाकलाप और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित श्री सत्य साईं ग्रामीण जागृति सेवा सदन (बहुआयामी ग्रामीण कल्याण परियोजना) को चलाने की परियोजना या स्कीम को वित्त वर्ष से 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए (45.00 लाख रुपये कार्पस निधि के रूप में, 19.00 लाख रुपये आवर्ती खर्च और 3.00 लाख रुपये वाहन खरीद के लिए) केवल एक सौ सैंतीस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 108/2004/फा. सं. एन. सी.-348/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2004

S.O. 375 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.15(E) dated the 11th January, 1994, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified, at serial number 12, for Sri Sathya Sai Gramin Jagriti Seva Sadan (A multi-dimensional Rural Welfare Project) including health care, education sports, spiritual activities and vocational training at Village Darwa, District Yamuna Nagar, Haryana, by Shri Sathyasai Gramin Jagriti, Sai Sadan, House No.551, Sector 8-B, Chandigarh – 160018, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1994-1995 which was extended further vide notification number S.O.864(E) dated the 27th October, 1995 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997 which was extended further vide notification number S.O.864(E) dated 12th December, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 and which was amended to enhance the amount vide notification number S.O.286(E) dated 28th March, 2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Sri Sathya Sai Gramin Jagriti Seva Sadan (A multi-dimensional Rural Welfare Project) including health care, education sports, spiritual activities and vocational training at Village Darwa, District Yamuna Nagar, Haryana, which is being carried out by Shri Sathyasai Gramin Jagriti, Sai Sadan, House No.551, Sector 8-B, Chandigarh – 160018 at the estimated cost of rupees one hundred thirty seven lakhs (Rs.45.00 lakhs as corpus fund, Rs.19.00 lakhs for recurring expenses and Rs.3.00 lakhs for purchase of van) only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2004-2005.

[No. 108/2004/F.No. NC-348/2003]

SUNIL SHARMA, Dy. Secy, (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2004

का.आ. 376 (अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजरब विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं० सा० आ० 469 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, डाकघर राजगंगापुर - 770017, उड़ीसा द्वारा, जिला सुन्वरगढ़ के 30 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 12 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 917 (अ) के द्वारा पात्र परियोजना एवं स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया था जिसे बाद में दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 502 (अ) के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनः बढ़ा दिया था तथा 22 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं० सा० आ० 64 (3) के द्वारा संशोधित किया गया था और राशि को बढ़ा दिया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के सात वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन और वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, डाकघर राजगंगापुर - 770017, उड़ीसा द्वारा, जिला सुन्दरगढ़ के 30 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजना या स्कीम को वित्त वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन और वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल सत्रह लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 109/2004/फा. सं. एन. सी.-348/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2004

S.O. 376 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.469(E) dated the 2nd July, 1996, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12, for Primary Health Project at 30 Villages of Sundergarh District of Orissa by Dalmia Bharat Seva Trust, P.O. Rajgangapur-770017, Orissa as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.917(E) dated the 29th December, 1997 as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.502(E) dated 26th May, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was amended to enhance the amount vide notification number S.O.64(E) dated 22nd January, 2003 ;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond seven years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Primary Health Project at 30 Villages of Sundergarh District of Orissa, which is being carried out by Dalmia Bharat Seva Trust, P.O. Rajgangapur-770017, Orissa at the estimated cost of rupees seventeen lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2003-2004.

[No. 109/2004/F.No. NC-348/2003]

SUNIL SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2004

का.आ. 377 (अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 791 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ग्राम्य विकास मण्डल, पलियाड डाकघर पलियाड, तालुक कलोल (एन०जी०) जिला मेहसाणा गुजरात द्वारा गुजरात जिला मेहसाणा पलियाड में एस० जे० पटेल सार्वजनिक अस्पताल के रखरखाव के लिए कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 863 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था , और जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 548 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन और वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना की लागत को 41.50 लाख रुपये से 56.50 लाख रुपये संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर नियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
(क) एतद्वारा ग्राम्य विकास मण्डल, पलियाड डाकघर पलियाड, तालुक कलोल (एन०जी०) जिला मेहसाणा, गुजरात द्वारा गुजरात जिला मेहसाणा पलियाड में एस० जे० पटेल सार्वजनिक अस्पताल के रखरखाव की परियोजना या स्कीम के वित्त-वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्दिष्ट करती है ।

(ख) दिनांक 18 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना सं० सा० आ० 791 (अ०) में अपने निम्नानुसार संशोधित करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 6 के कॉलम (4) में अनुज्ञात की गई अधिकतम लागत से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द “41.50 लाख रुपये के लिए” “ 56.50 लाख रुपये ” अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 110/2004/फा. सं. एन. सी.-348/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2004

S.O. 377 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.791(E) dated the 18th September, 1995, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for Maintenance of S.J.Patel Sarvajanik Hospital at Paliad, Tal. Kalol, District Mehsana, Gujarat by Gramya Vikas Mandal, Paliad, At and P.O.Paliad, Tal. Kalol (NG), District Mehsana, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997 which was extended further vide notification number S.O.863(E) dated the 12th December, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 and which was extended further vide notification number S.O.548(E) dated 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs.41.50 lakhs to Rs.56.50 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project of Maintenance of S.J.Patel Sarvajanik Hospital at Paliad, Tal. Kalol, District Mehsana, Gujarat by Gramya Vikas Mandal, Paliad, At and P.O.Paliad, Tal. Kalol (NG), District Mehsana, Gujarat as an eligible project of scheme for a further period of three years beginning with financial year 2004-2005; and
- (b) further amends the said notification number S.O. 791(E) dated the 18th September, 1995, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 6, in column (4) relating to maximum cost for which allowed, for the letters, figures and word "Rs.41.50 lakhs", the letters, figures and word "Rs.56.50 lakhs" shall be substituted.

[No. 110/2004/F.No. NC-348/2003]

SUNIL SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2004

का.आ. 378 (अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 591 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने हाजी अब्दुल मजीद मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट, डाकखाना हजाई, गाँव गोपाल नगर, जिला नागोंन, असम-782435 द्वारा असम, जिला नागोंन, हजाई में भवन निर्माण, उपस्करों, साज-सज्जा तथा हास्पिटल और अनुसंधान केन्द्र को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 13 पर विनिर्दिष्ट किया था ; जिसे बाद में दिनांक 17 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना

सं० सां० आ० 1030 (अ०) द्वारा पात्र परियोजना एवं स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाजी अब्दुल मजीद मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट, डाकखाना हजाई, गाँव गोपाल नगर जिला नागोंन, असम-782435 द्वारा चलाई जा रही असम, जिला नागोंन, हजाई में भवन निर्माण, उपस्करों, साज-सज्जा तथा हास्पिटल को चलाने और अनुसंधान केन्द्र की परियोजना या स्कीम को वित्त वर्ष से 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए केवल पिचहत्तर करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 111/2004/फा. सं. एन. सी.-348/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2004

S.O. 378 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.591(E) dated the 20th August, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, for Construction of building, equipments furnishing and running of Hospital and Research Centre, at Hojai, District Nagaon, Assam, by Haji Abdul Majid Memorial Public Trust, Post Office Hajai, Village Gopal Nagar District Nagaon, Assam – 782435, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 and which was extended further vide notification number S.O.1030(E) dated the 17th November, 2000 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of building, equipments furnishing and running of Hospital and Researchd Centre, at Hojai, District Nagaon, Assam, which is being carried out by Haji Abdul Majid Memorial Public Trust, Post Office Hajai, Village Gopal Nagar District Nagaon, Assam – 782435 at the estimated cost of rupees seventy five crores ninety three lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2003-2004.

[No. 111/2004/F.No. NC-348/2003]

SUNIL SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2004

का.आ. 379 (अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 497 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तिरुमलाई चैरिटी ट्रस्ट, तिरुमलाई, 103, सिवरी वडाला, मुम्बई-400031 द्वारा तमिलनाडु, जिला वल्लोर, वलजा एंव आरकोट तालुका के गांवों में भवन निर्माण, कार्यालय उपकरणों की खरीद, दवाईयां, वाहन, साइकिल, साज-सज्जा, स्वयं सेवकों/स्वास्थ्य कर्मिकों के प्रशिक्षण, अनुसंधान, स्वास्थ्य शिविर और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 9 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु चैरिटी ट्रस्ट, तिरुमलाई, 103, सिव्बरी वडाला, मुम्बई-400031 द्वारा चलाई जा रही तिरुमलाई, जिला वल्लोर, वेलजा एवं आरकोट तालुका के गांवों में भवन निर्माण, कार्यालय उपकरणों की खरीद, दवाईयां, वाहन, साइकिल, साज-सज्जा, स्वयं सेवकों/स्वास्थ्य कार्मिकों के प्रशिक्षण, अनुसंधान, स्वास्थ्य शिविर और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने की परियोजना या स्कीम को वित्त वर्ष से-2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए केवल उन्नासी लाख सैंतीस हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 112/2004/फा. सं. एन. सी.-348/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2004

S.O. 379 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.497(E) dated the 26th May, 2000, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 9, for Construction of building, purchase of office equipments, medicines, moped, cycle, furnishing, training of volunteers/health workers, research, health camps and running of rural health services at Villages of Walaja & Arcot Taluks, Vellore District, Tamilnadu, by Thirumalai Charity Trust, Thirumalai, 103, Sewree Wadala, Mumbai-400031, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of building, purchase of office equipments, medicines, moped, cycle, furnishing, training of volunteers/health workers, research, health camps and running of rural health services at Villages of Walaja & Arcot Taluks, Vellore District, Tamilnadu, which is being carried out by Thirumalai Charity Trust, Thirumalai, 103, Sewree Wadala, Mumbai-400031 at the estimated cost of rupees seventy nine lakhs thirty seven thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2003-2004.

[No. 112/2004/F.No. NC-348/2003]

SUNIL SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2004

का.आ. 380 (अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 मार्च, 1997 को अधिसूचना सं० सां० आ० 180 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री नवचेतन एजुकेशन ट्रस्ट, पो०आ० दियोली, तालुक इंदर, जिला साबरकांठा, गुजरात द्वारा सं० 138/ए ग्राम, दियोली, तालुक-इंदर, जिला साबरकांठा, गुजरात में हाईस्कूल के निर्माण की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 753 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में और आगे बढ़ा दिया गया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अमिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नवचेतन एजुकेशन ट्रस्ट, पो०आ० दियोली, तालुक इंदर, जिला साबरकांठा, गुजरात द्वारा सं० 138/ए ग्राम, दियोली, तालुक-इंदर, जिला साबरकांठा, गुजरात में हाईस्कूल के निर्माण की परियोजना या स्कीम को छब्बीस लाख की अनुमानित लागत पर वित्त वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए केवल एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 113/2004/फा. सं. पन. सी.-348/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2004

S.O. 380 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.180(E) dated the 10th March, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 5, for Construction of High School at Block No.138/A, Village : Dioli, Taluk – Idar, District Sabarkantha, Gujarat, by Shri Navchetan Education Trust, P.O.Diyoli, Taluk Idar, District Sabarkantha, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 and which was extended further vide notification number S.O.753(E) dated the 10th September, 1999 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of High School at Block No.138/A, Village : Dioli, Taluk – Idar, District Sabarkantha, Gujarat, which is being carried out by Shri Navchetan Education Trust, P.O.Diyoli, Taluk Idar, District Sabarkantha, Gujarat at the estimated cost of rupees twenty six lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2002-2003.

[No. 113/2004/F.No. NC-348/2003]

SUNIL SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2004

का.आ. 381 (अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० सं. आ० 96 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने करुणा सेतु ट्रस्ट, वादनगर-384355, गुजरात द्वारा वादमगर, मेहसाणा जिला, गुजरात में अस्पताल का संचालन, उपस्करों की खरीद और कल्याणकारी गतिविधियां चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक

10 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 29 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1120 (अ०) द्वारा संशोधित किया गया था और सशि को बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमवली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्वये उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 142.03 लाख रु० से 184.50 लाख रु० (50.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित) संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) एतद्द्वारा करुणा सेतु ट्रस्ट, वादनगर-384355, गुजरात द्वारा वादनगर, मेहसाणा जिला, गुजरात में अस्पताल का संचालन एवं रखरखाव, उपस्करों की खरीद और कल्याणकारी गतिविधियां चलाने की स्कीम अथवा परियोजना की वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन और वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में विनिर्दिष्ट करती है और

(ख) दिनांक 11 फरवरी, 1999 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 96 (अ०) में निम्न प्रकार से आगे संशोधन करती है, नामतः -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं० 5 के सामने कॉलम (4) में, अनुज्ञात की जाने अधिकतम लागत से संबंधित आंकड़ों में अक्षर, अंकों और शब्दों “ 142.03 लाख रु०” के स्थान पर अक्षर, अंक और शब्द “ (50.00 लाख रु० की कार्पस निधि सहित 184.50 लाख रु०” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 114/2004/फा. सं. एन. सी.-348/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2004

S.O. 381 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.96(E) dated the 11th February, 1999, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 5, for Running of hospital, purchase of equipments and welfare activities at Vadnagar, Mehsana District, Gujarat, by Karuna Setu Trust, Vadnagar – 384355, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.29(E) dated the 10th January, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 and which was amended and enhanced the amount vide notification number S.O.1120(E) dated the 24th October, 2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs.142.03 lakhs to Rs.184.50 lakhs(including a corpus fund of Rs.50.00 lakhs);

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project of Maintenance of Running of hospital, purchase of equipments and welfare activities at Vadnagar, Mehsana District, Gujarat by Karuna Setu Trust, Vadnagar – 384355, Gujarat as an eligible project of scheme for a further period of three years beginning with financial year 2003-2004, and
- (b) further amends the said notification number S.O. 96(E) dated the 11th February, 1999, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 5, in column (4), relating to maximum cost for which allowed, for the letters, figures and word “Rs.142.03 lakhs” the letters, figures and word “Rs.184.50 lakhs (including a corpus fund of Rs.50.00 lakhs)” shall be substituted.

[No. 114/2004/F.No. NC-348/2003]

SUNIL SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)